



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, मार्च 7, 2002/फाल्गुन 16, 1923

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2002/PHALGUNA 16, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002

सं. 14/2002-सीमाशुल्क ( एन. टी. )

सा.का.नि. 170(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 58/97 सीमाशुल्क (एन. टी.), तारीख 24 नवंबर, 1997 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, दिल्ली	दिल्ली - I, दिल्ली - II, दिल्ली - III, दिल्ली IV, दिल्ली V और पंचकुला के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़	चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना। सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) और अमृतसर (निवारक कार्य से भिन्न कार्य) के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, कोलकता	कोलकता - I, कोलकता - II, कोलकता - III, कोलकता - IV, कोलकता - V, कोलकता VI, कोलकता - VII, हल्दिया, बोलपुर और सिलीगुडी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर - I और भुवनेश्वर - II के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
5	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, गुवाहाटी	गुवाहाटी और शिलांग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त। सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), शिलांग।
6	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, लखनऊ	लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।

(1)	(2)	(3)
7	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, मेरठ	मेरठ - I, मेरठ - II, गाजियाबाद और नोयडा के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
8	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, रांची	रांची, जमशेदपुर और पटना के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
9	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, मुम्बई - I	मुम्बई - I, मुम्बई - IV, मुम्बई - V, थाणे - I और थाणे II के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
10	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, मुम्बई - II	मुम्बई II, मुम्बई III, बेलापुर और रायगढ़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ।
11	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, जयपुर	जयपुर - I और जयपुर - II के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, भोपाल	भोपाल, इंदौर और रायपुर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
13	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, पुणे	पुणे - I, पुणे - II, पुणे - III और गोवा के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त । सीमाशुल्क आयुक्त, पुणे (निवारक कार्य से भिन्न कार्य)
14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, नागपुर	नागपुर, नासिक और औरंगाबाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
15	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, बड़ोदरा	बड़ोदरा - I, बड़ोदरा - II, वल्साद, सूरत - I, सूरत - II और दमन के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
16	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, अहमदाबाद	अहमदाबाद - I, अहमदाबाद - II, अहमदाबाद - III, राजकोट - I और राजकोट - II के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
17	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, बंगलौर - I	बंगलौर - I, बंगलौर - II और बंगलौर - III के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
18	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, बंगलौर - II	मैसूर, मंगलौर और बेलगाँव के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
19	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, कोचीन	कोचीन, कालीकट और तिरुअनंतपुरम के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
20	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, हैदराबाद - I	हैदराबाद - I, हैदराबाद - II, हैदराबाद - III और हैदराबाद - IV के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
21	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, हैदराबाद - II	हैदराबाद - IV, गुन्तूर, विशाखापत्तनम - I और विशाखापत्तनम - II के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त । सीमाशुल्क आयुक्त विशाखापत्तनम ।
22	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, चेन्नई - I	चेन्नई - I, चेन्नई - II, चेन्नई - III, चेन्नई - IV और पांडिचेरी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
23	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, त्रिची, सलेम, मदुरै और तिरुनेल्वेली के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ।
24	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, दिल्ली	सीमाशुल्क आयुक्त, एयरकारगो (आयात) और साधारण, दिल्ली एयरकारगो (निर्यात), दिल्ली (आई सी डी एस), दिल्ली ।
25	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, मुम्बई (समुद्र और साधारण)	मुलंद सी एफ एस और साधारण, मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्त,

(1)	(2)	(3)
26	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, मुम्बई (विमान)	(आयात), न्हावा शेवा, (निर्यात), न्हावा शेवा, (विमान पत्तन), मुम्बई, एयरकारगो (आयात), मुम्बई और एयरकारगो (निर्यात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्त ।
27	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, कोलकता	(पत्तन), कोलकता, (विमानपत्तन), कोलकता और (निवारक), पश्चिमी बंगाल ।
28	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, चेन्नई	(विमान पत्तन और एयरकारगो), चेन्नई, पत्तन (आयात), चेन्नई, पत्तन (निर्यात), चेन्नई के सीमाशुल्क आयुक्त ।
29	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, बंगलौर	बंगलौर, मंगलौर, कोचीन और कोचीन (निवारक) के सीमाशुल्क आयुक्त ।
30	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, अहमदाबाद	अहमदाबाद, जामनगर (निवारक) और कांदला के सीमाशुल्क आयुक्त ।
31	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, (निवारक), दिल्ली	दिल्ली (निवारक), अमृतसर (केवल निवारक कार्य) और जोधपुर (निवारक) के सीमाशुल्क आयुक्त ।
32	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, (निवारक), पटना	पटना (निवारक) और लखनऊ (निवारक) के सीमाशुल्क आयुक्त ।
33	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, (निवारक), मुम्बई	(निवारक), मुम्बई और पुणे (केवल निवारक कार्य) के सीमाशुल्क आयुक्त ।
34	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, (निवारक), चेन्नई	चेन्नई (निवारक) और तिरुचिरापल्ली (निवारक) के सीमाशुल्क आयुक्त ।

[ फा. सं. 437/8/2001-सीमाशुल्क-IV ]

डी. एस. गार्बाल, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2002

No. 14/2002-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.58/97-Customs (N.T.), dated the 24<sup>th</sup> November, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be the Chief Commissioners of Customs, for the areas falling within the jurisdiction of the Commissioner of Customs, or as the case may be, the Commissioner of Central Excise mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Commissioner of Central Excise, Delhi	Commissioners of Central Excise, Delhi-I, Delhi-II, Delhi-III, Delhi-IV, Delhi-V and Panchkula

(1)	(2)	(3)
2.	Chief Commissioner of Central Excise, Chandigarh	Commissioners of Central Excise, Chandigarh, Jalandhar, Ludhiana. Commissioner of Customs (Preventive) Amritsar (other than preventive work).
3	Chief Commissioner of Central Excise, Kolkata	Commissioners of Central Excise, Kolkata-I, Kolkata-II, Kolkata-III, Kolkata-IV, Kolkata-V, Kolkata-VI, Kolkata-VII, Haldia, Bolpur and Siliguri.
4	Chief Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar	Commissioners of Central Excise, Bhubaneswar-I and Bhubaneswar-II.
5	Chief Commissioner of Central Excise, Guwahati	Commissioners of Central Excise, Guwahati and Shillong Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.
6	Chief Commissioner of Central Excise, Lucknow	Commissioners of Central Excise, Lucknow, Kanpur and Allahabad.
7	Chief Commissioner of Central Excise, Meerut	Commissioners of Central Excise, Meerut-I, Meerut-II, Ghaziabad and Noida
8	Chief Commissioner of Central Excise, Ranchi	Commissioners of Central Excise, Ranchi, Jamshedpur and Patna.
9	Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-I	Commissioners of Central Excise, Mumbai-I, Mumbai-IV, Mumbai-V, Thane-I and Thane-II.
10	Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-II	Commissioners of Central Excise, Mumbai-II, Mumbai-III, Belapur and Raigad.
11	Chief Commissioner of Central Excise, Jaipur	Commissioners of Central Excise, Jaipur-I and Jaipur-II.
12	Chief Commissioner of Central Excise, Bhopal	Commissioners of Central Excise, Bhopal, Indore and Raipur.
13	Chief Commissioner of Central Excise, Pune	Commissioners of Central Excise, Pune-I, Pune-II, Pune-III and Goa. Commissioner of Customs, Pune (other than preventive work) and Goa.
14	Chief Commissioner of Central Excise, Nagpur	Commissioners of Central Excise, Nagpur, Nasik and Aurangabad.
15	Chief Commissioner of Central Excise, Vadodara	Commissioners of Central Excise, Vadodara-I, Vadodara-II, Valsad, Surat-I, Surat-II and Daman

(1)	(2)	(3)
16	Chief Commissioner of Central Excise, Ahmedabad	Commissioners of Central Excise, Ahmedabad-I, Ahmedabad-II, Ahmedabad-III, Raikot-I and Raikot-II.
17	Chief Commissioner of Central Excise, Bangalore-I	Commissioners of Central Excise, Bangalore-I, Bangalore-II and Bangalore-III.
18	Chief Commissioner of Central Excise, Bangalore-II	Commissioners of Central Excise, Mysore, Mangalore and Belgaum.
19	Chief Commissioner of Central Excise, Cochin	Commissioners of Central Excise, Cochin, Calicut and Thiruvananthapuram.
20	Chief Commissioner of Central Excise, Hyderabad-I	Commissioners of Central Excise, Hyderabad-I, Hyderabad-II, Hyderabad-III and Hyderabad-V
21	Chief Commissioner of Central Excise, Hyderabad-II	Commissioners of Central Excise, Hyderabad-IV, Guntur, Vishakhapatnam-I and Vishakhapatnam-II Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.
22	Chief Commissioner of Central Excise, Chennai-I	Commissioners of Central Excise, Chennai-I, Chennai-II, Chennai-III, Chennai-IV and Pondicherry
23	Chief Commissioner of Central Excise, Coimbatore	Commissioners of Central Excise, Coimbatore, Trichy, Salem, Madurai and Tirunelveli.
24	Chief Commissioner of Customs, Delhi	Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi (ICDs), Delhi.
25	Chief Commissioner of Customs, Mumbai (Sea and General)	Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai and (Import), Mumbai.
26	Chief Commissioner of Customs, Mumbai (Air)	Commissioners of Customs, (Import), Nhava Sheva, (Export), Nhava Sheva, (Airport), Mumbai, Aircargo (Import), Mumbai and Aircargo (Export), Mumbai.
27	Chief Commissioner of Customs, Kolkata	Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata and (Preventive), West Bengal.

(1)	(2)	(3)
28	Chief Commissioner of Customs, Chennai	Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai and Port (Export), Chennai.
29	Chief Commissioner of Customs, Bangalore	Commissioners of Customs, Bangalore, Mangalore, Cochin and (Preventive) Cochin.
30	Chief Commissioner of Customs, Ahmedabad	Commissioners of Customs, Ahmedabad, (Preventive) Jamnagar and Kandla.
31	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Delhi	Commissioners of Customs, (Preventive) Delhi, (Preventive) Amritsar (only preventive work) and (Preventive) Jodhpur.
32	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Patna	Commissioners of Customs, (Preventive) Patna and Lucknow (Preventive).
33	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai	Commissioners of Customs, (Preventive) Mumbai and Pune (only preventive work).
34	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Chennai	Commissioners of Customs, (Preventive) Chennai and (Preventive) Tiruchirapalli.

[F. No. 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002

सं. 15/2002-सीमाशुल्क ( एन. टी. )

सा.का.नि. 171(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 13/89 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 9 मार्च, 1989 और अधिसूचना सं० 27/97- सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 7 जुलाई, 1997 को अधिकांश करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अधिकारियों को उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क अपर आयुक्त या सीमाशुल्क संयुक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकारियों को सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त नियुक्त करती है।

## सारणी

क्रम संख्या	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम		
		(3)	(4)	(5)
1	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में नोयडा निर्यात प्रसंस्करण जोन।	एयरकारगो (आयात) और साधारण, दिल्ली, एयरकारगो (निर्यात), दिल्ली, (आई सी डी एस), दिल्ली के सीमाशुल्क आयुक्त।	एयरकारगो (आयात) और साधारण, दिल्ली, एयरकारगो (निर्यात), दिल्ली, (आई सी डी एस), दिल्ली के सीमाशुल्क आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त।	एयरकारगो (आयात) और साधारण, दिल्ली, एयरकारगो (निर्यात), दिल्ली, (आई सी डी एस), दिल्ली के सीमाशुल्क आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त।
2	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, सम्पूर्ण हरियाणा	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), दिल्ली	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), दिल्ली के	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), दिल्ली के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में नोयडा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।		नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ।	नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
3	<p>(क) मुम्बई पत्तन, मुम्बई विमानपत्तन (सांताक्रुज और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन), मुम्बई नगर निगम की अधिकारिता के अधीन का क्षेत्र और कान्टीनेन्टलशेल्फ में अभिहित क्षेत्र तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित भारत का अनन्य आर्थिक जोन ।</p> <p>(ख) महाराष्ट्र राज्य में जवाहर लाल नेहरू पत्तन और रायगढ़ जिले में पानवेल का तालुक ।</p> <p>(ग) सीपज विशेष आर्थिक जोन</p>	मुलंद सी एफ एस और साधारण, मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात), न्हावा शेवा, (विमानपत्तन), मुम्बई, एयरकारगो (आयात), मुम्बई, एयरकारगो (निर्यात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्त	मुलंद सी एफ एस और साधारण, मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात), न्हावा शेवा, (विमानपत्तन), मुम्बई, एयरकारगो (आयात), मुम्बई, एयरकारगो (निर्यात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त	मुलंद सी एफ एस और साधारण, मुम्बई, सीमाशुल्क आयुक्त (निर्यात), मुम्बई, सीमाशुल्क आयुक्त (आयात), मुम्बई, (आयात) न्हावा शेवा, (निर्यात), न्हावा शेवा, (विमानपत्तन), मुम्बई, एयरकारगो (आयात), मुम्बई, एयरकारगो (निर्यात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त
4.	महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, थाणे और रायगढ़ जिले ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), मुम्बई	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), मुम्बई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), मुम्बई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
5.	(क) कोलकता और हल्दिया के पत्तन, नेताजी सुभाष चन्द्र अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन, कोलकता, हावड़ा और साउथ सवरवन कोरपोरेशन की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र, हुगली नदी का उत्तरी क्षेत्र जो कोलकता पत्तन की उत्तरी सीमा तक की धारा है और वह सभी भूमि जो नदी के दोनों किनारों पर स्प्रिंगटाइड पर उच्च जल चिन्ह के दस किलोमीटर के भीतर आती है ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (पत्तन), कोलकता, सीमाशुल्क आयुक्त, (विमानपत्तन), कोलकता ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (पत्तन), कोलकता, सीमाशुल्क आयुक्त, (विमानपत्तन), कोलकता के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (पत्तन), कोलकता, सीमाशुल्क आयुक्त, (विमानपत्तन), कोलकता के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।  (ग) फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन			
6.	सम्पूर्ण (क) पश्चिमी बंगाल राज्य (ख) सिक्किम राज्य (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), पश्चिमी बंगाल ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), पश्चिमी बंगाल के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), पश्चिमी बंगाल के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
7.	(क) चेन्नई पत्तन, एन्नौर पत्तन, अन्ना अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन और चेन्नई निगम की अधिकारिता के अंदर का क्षेत्र और तिरुवल्लूर जिले के अंबातूर, गुम्मीडी पुंडी, पूनामल्ली और पुनेरी तालुक, कांचीपुरम जिले का तांबारम तालुक तथा कान्टिनेन्टल शेल्फ में के क्षेत्र तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथाघोषित भारत का अनन्य आर्थिक जोन ।  (ख) चेन्नई निर्यात प्रसंस्करण जोन ।	(वायुपत्तन और एयरकारगो), चेन्नई, पत्तन (आयात), चेन्नई, पत्तन (निर्यात), चेन्नई के सीमाशुल्क आयुक्त	(वायुपत्तन और एयरकारगो), चेन्नई, पत्तन (आयात), चेन्नई, पत्तन (निर्यात), चेन्नई के सीमाशुल्क आयुक्तों के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ।	(वायुपत्तन और एयरकारगो), चेन्नई, पत्तन (आयात), चेन्नई, पत्तन (निर्यात), चेन्नई के सीमाशुल्क आयुक्तों के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
8.	(क) चेन्नई पत्तन, एन्नौर पत्तन, अन्ना अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन और चेन्नई निगम की अधिकारिता के अंदर का क्षेत्र और तिरुवल्लूर जिले के अंबातूर, गुम्मीडी पुंडी, पूनामल्ली और पुनेरी तालुक, कांचीपुरम जिले का तांबारम तालुक	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), चेन्नई ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), चेन्नई के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), चेन्नई के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	तथा कान्टिनेन्टल शेल्फ, में के क्षेत्र तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथाघोषित भारत का अनन्य आर्थिक जोन ।  (ख) चेन्नई निर्यात प्रसंस्करण जोन ।			
9.	सीमाशुल्क आयुक्त, मंगलौर की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य ।	सीमाशुल्क आयुक्त, बंगलौर ।	सीमाशुल्क आयुक्त बंगलौर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त बंगलौर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
10.	मंगलौर पत्तन के अधीन क्षेत्रों सहित कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ कोडुगु, हसन, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेलगांव, बीजापुर, उडुपी, गडग, धारवाड़, कोप्पल, बेल्लेरी, रायचूर, बगलकोट, गुलबर्ग और बिडार जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र	सीमाशुल्क आयुक्त, मंगलौर ।	सीमाशुल्क आयुक्त मंगलौर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त मंगलौर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
11.	कोचीन पत्तन, कोचीन विमान पत्तन, कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन और वृहत्तर कोचीन विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में सीमाशुल्क विरचना ।	सीमाशुल्क आयुक्त, कोचीन ।	सीमाशुल्क आयुक्त कोचीन के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त कोचीन के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
12.	सम्पूर्ण (क) केरल राज्य ; (ख) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और (ग) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे कम्यून और यनाम ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), कोचीन ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), कोचीन के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), कोचीन के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
13.	(क) सम्पूर्ण गुजरात राज्य (सीमाशुल्क आयुक्त, कांदला की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) ; (ख) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ; (ग) दमन और दीव	सीमाशुल्क आयुक्त, अहमदाबाद ।	सीमाशुल्क आयुक्त अहमदाबाद के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त अहमदाबाद के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	(क) सम्पूर्ण गुजरात राज्य ; (ख) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ; (ग) दमन और दीव	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), जामनगर ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
15.	कांदला पत्तन और विमान पत्तन, कांदला विशेष आर्थिक जोन तथा उस जोन के चारों तरफ आठ किलोमीटर की परिधि के भीतर के क्षेत्र तथा गांधी धाम नगर पालिका की अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र ।	सीमाशुल्क आयुक्त, कांदला ।	सीमाशुल्क आयुक्त कांदला के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त कांदला के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
16.	आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापटनम पत्तन और विमान पत्तन, विशाखापटनम निर्यात प्रसंस्करण जोन तथा विशाखापटनम नगर निगम के अधीन क्षेत्र ।	सीमाशुल्क आयुक्त, विशाखापटनम ।	सीमाशुल्क आयुक्त विशाखापटनम के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त विशाखापटनम के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
17.	महाराष्ट्र राज्य में पुणे, सिंध दुर्ग, रत्नागिरि, सांगली, कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र	सीमाशुल्क आयुक्त, पुणे ।	सीमाशुल्क आयुक्त पुणे के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त पुणे के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
18.	मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), शिलांग ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), शिलांग के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), शिलांग के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
19.	सम्पूर्ण - (1) पंजाब राज्य (2) हिमाचल प्रदेश राज्य (3) जम्मू - कश्मीर राज्य (4) घंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), अमृतसर ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), अमृतसर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), अमृतसर के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
20.	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), जोधपुर ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर के	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
21.	(क) सम्पूर्ण बिहार और झारखंड राज्य, (ख) पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग, उत्तरी दीनाज पुर, दक्षिणी दीनाज पुर, मालदा (इनप्राज बाजार) जिले, (ग) सिक्किम राज्य	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), पटना ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), पटना के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), पटना के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
22.	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य ।	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), लखनऊ ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), लखनऊ के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), लखनऊ के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
23.	(क) सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), चेन्नई की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य, (ख) माहे क्मयून और यनाम राज्य क्षेत्र को छोड़कर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), तिरुचिरापल्ली ।	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), तिरुचिरापल्ली के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), तिरुचिरापल्ली के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।
24.	सम्पूर्ण गोवा राज्य	सीमाशुल्क आयुक्त, गोवा ।	सीमाशुल्क आयुक्त गोवा के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त ॥	सीमाशुल्क आयुक्त गोवा के अधीन कार्यरत सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त ।

[ फा. सं. 437/8/2001-सीमाशुल्क-IV ]

डी. एम. गार्ग्याल प्रवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2002

No. 15/2002-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 171(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.13/89-Customs (N.T.), dated the 9<sup>th</sup> March, 1989 and No. 27/97-Customs (N.T.), dated the 7<sup>th</sup> July, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (3) of the Table below to be the Commissioners of Customs, the officers mentioned in column (4) thereof to be the Additional Commissioners of Customs or Joint Commissioners of Customs, the officers mentioned in column (5) thereof to be the Deputy Commissioners of Customs or Assistant Commissioners of Customs, for the areas mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

TABLE

Sl.No	Area	Designation of the Officer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	The National Capital Territory of Delhi, the whole of the State of Haryana and the NOIDA Export Processing Zone in the State of Uttar Pradesh.	Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo(Export), Delhi, (ICDs), Delhi.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi, (ICDs), Delhi.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General, Delhi, Aircargo (Export), Delhi, (ICDs), Delhi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	The National Capital Territory of Delhi, the whole of the State of Haryana and the NOIDA Export Processing Zone in the State of Uttar Pradesh.	Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Delhi.
3	<p>(a) Port of Mumbai, Mumbai Airport (Santa Cruz and Chatrapati Shivaji International Airports), the area under the jurisdiction of the Mumbai Municipal Corporation, and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time.</p> <p>(b) The Jawahar Lal Nehru Port and the Taluka of Panvel in the District of Raigad in the State of Maharashtra.</p> <p>(c) SEEPZ Special Economic Zone.</p>	Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, Mulund CFS and General, Mumbai, (Export), Mumbai, (Import), Mumbai, (Import) Nhava Sheva, (Export) Nhava Sheva, (Airport) Mumbai, Air Cargo (Import), Mumbai, Air-Cargo(Export), Mumbai.
4	Mumbai, Thane and Raigad districts in the State of Maharashtra.	Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<p>(a) Ports of Kolkata and Haldia, Netaji Subhash Chandra International Airport, the area under the jurisdiction of Kolkata, Howrah and South Sub-urban Corporations, so much of the Hooghly river as is downstream of the Northern limit of Kolkata Port, and all lands as are within 10 kms of high water mark at spring tide on either side of the river.</p> <p>(b) The Andaman and Nicobar Islands.</p> <p>(c) FALTA Export Processing Zone</p>	Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Port), Kolkata, (Airport), Kolkata.
6	<p>The whole of the</p> <p>(a) State of West Bengal;</p> <p>(b) State of Sikkim;</p> <p>(c) Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands.</p>	Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.
7	<p>(a) Port of Chennai, Port of Ennore, the Anna International Air Port and the area under the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur Dist., Tambaram Taluk of Kancheepuram District and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time.</p> <p>(b) Chennai Export Processing Zone</p>	Commissioners of Customs, (Airport & Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioners of Customs, (Airport and Aircargo), Chennai, Port (Import), Chennai, Port (Export), Chennai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	<p>(a) Port of Chennai, Port of Ennore, the Anna International Air Port and the area under the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur Dist., Tambaram Taluk of Kancheepuram District and the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the Government of India from time to time.</p> <p>(b) Chennai Export processing Zone.</p>	Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Chennai.
9	The whole of the State of Karnataka excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs, Mangalore.	Commissioner of Customs, Bangalore.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Bangalore.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Bangalore.
10	The whole of the areas in the districts of the Uttar Kannada, Dakshina Kannada, Kodugu, Hassan, Chickmagalur, Shimoga, Belgaum, Bijapur, Udupi, Gadag, Dharwad, Koppal, Bellary, Raichur, Bagalkot, Gulbarga and Bidar in the State of Karnataka including areas under Mangalore Port.	Commissioner of Customs, Mangalore	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Mangalore.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Mangalore.
11	Port of Cochin, Cochin Airport, Cochin Export Processing Zone and Customs formation under the area under the jurisdiction of Greater Cochin Development Authority.	Commissioner of Customs, Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Cochin.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Cochin.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	The whole of the (a) State of Kerala; (b) Union Territory of Lakshadweep; and (c) the Mahe commune and Yanam Territory of the Union Territory of Pondicherry.	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
13	(a) The whole of the State of Gujarat (excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs, Kandla); (b) The Union Territory of Dadra & Nagar Haveli; (c) The Union Territory of Daman & Diu.	Commissioner of Customs, Ahmedabad.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Ahmedabad.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Ahmedabad.
14	(a) The whole of the State of Gujarat; (b) The Union Territory of Dadra & Nagar Haveli; (c) The Union Territory of Daman & Diu.	Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar.
15	Port and Airport of Kandla, Kandla Special Economic Zone and the areas within a radius of 8 kms. around that Zone & the areas under the jurisdiction of Gandhidham Municipality.	Commissioner of Customs, Kandla.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Kandla.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Kandla.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Port and Airport of Vishakhapatnam, Vishakhapatnam Export Processing Zone and the areas under the Municipal Corporation of Vishakhapatnam in the State of Andhra Pradesh.	Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Vishakhapatnam	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Vishakhapatnam
17	The whole of the areas in the districts of Pune, Sindhudurg, Ratnagiri, Sangli, Kolhapur, Satara, and Solapur in the State of Maharashtra.	Commissioner of Customs, Pune.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Pune.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Pune.
18	States of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura.	Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.
19	The whole of - 1) The State of Punjab 2) The State of Himachal Pradesh 3) The State of Jammu & Kashmir 4) The Union Territory of Chandigarh.	Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	The whole of the State of Rajasthan	Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.
21	(a) The whole of the State of Bihar and Jharkhand (b) Districts of Darjeeling, North Dinajpur, South Dinajpur, Maldha (Ingrajbazar) in the State of West Bengal (c) The State of Sikkim.	Commissioner of Customs (Preventive), Patna.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Patna.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Patna.
22	The whole of the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal	Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.
23	(a) The whole of the State of Tamilnadu excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs (Preventive), Chennai. (b) The Union Territory of Pondicherry excluding Mahe Commune and Yanam Territory.	Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirapalli.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	The whole of the State of Goa	Commissioner of Customs, Goa.	Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Goa.	Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs, Goa.

[F No 437/8/2001-Cus IV]

D S GARBYAL, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002

सं. 16/2002-सीमाशुल्क ( एन. टी. )

सा.का.नि. 172(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 29/97 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 7 जुलाई, 1997 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) नियुक्त करती है, और ऐसे अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथावर्णित अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के संबंध में अधिकारिता होगी।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), दिल्ली - I	एयरकारगो (आयात) और साधारण, दिल्ली एयरकारगो (निर्यात), दिल्ली, (निवारक) अमृतसर के सीमाशुल्क आयुक्त।
2.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), दिल्ली - II	(आई सी डी एस), दिल्ली, (निवारक), दिल्ली के सीमाशुल्क आयुक्त।
3.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), मुम्बई - I	मुलंद सी एफ एस और (साधारण), मुम्बई, (निर्यात), मुम्बई, (आयात), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्त।
4.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), मुम्बई - II	(निर्यात), न्हावा शेवा, (आयात), न्हावा शेवा के सीमाशुल्क आयुक्त।
5.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), मुम्बई - III	(वायुपत्तन), मुम्बई एयरकारगो (निर्यात), मुम्बई, एयरकारगो (आयात), मुम्बई, (निवारक), मुम्बई के सीमाशुल्क आयुक्त।
6.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), कोलकता	(पत्तन), कोलकता, वायुपत्तन, कोलकता, (निवारक), पश्चिम बंगाल के सीमाशुल्क आयुक्त।
7.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), चेन्नई	(पत्तन) (आयात), चेन्नई, पत्तन, (निर्यात), चेन्नई, वायुपत्तन और एयरकारगो चेन्नई, (निवारक), चेन्नई के सीमाशुल्क

(1)	(2)	(3)
		आयुक्त ।
8.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), बंगलौर	बंगलौर और मंगलौर के सीमाशुल्क आयुक्त ।
9.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), अहमदाबाद - I और अहमदाबाद - II	अहमदाबाद, (निवारक), जामनगर के सीमाशुल्क आयुक्त ।
10.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), कांदला	सीमाशुल्क आयुक्त, कांदला ।
11.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), तिरुअनंतपुरम	कोचीन, (निवारक), कोचीन के सीमाशुल्क आयुक्त ।
12.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), विशाखापत्तनम	सीमाशुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम ।
13.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), पुणे	सीमाशुल्क आयुक्त, पुणे, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त गोवा ।
14.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), जालंधर	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), अमृतसर ।
15.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), जयपुर	सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर ।
16.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), पटना	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), पटना ।
17.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), लखनऊ	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), लखनऊ ।
18.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), तिरुचिरापल्ली	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), तिरुचिरापल्ली ।
19.	सीमाशुल्क आयुक्त (अपील), गुवाहाटी	सीमाशुल्क आयुक्त, (निवारक), शिलांग

[फा. सं. 437/8/2001-सीमाशुल्क-IV]

डॉ. एस. गब्यारल, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2002

No. 16/2002-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 172(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.29/97-Customs (N.T.), dated the 7<sup>th</sup> July, 1997, the Central Government appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be Commissioner of Customs (Appeals), and such officers shall have the jurisdiction in relation to an order or decision of the officer subordinate to the officer as mentioned in the column (3) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No	Designation of Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Commissioner of Customs (Appeals), Delhi-I	Commissioners of Customs, Aircargo (Import) and General Delhi, Aircargo (Export) Delhi, (Preventive) Amritsar.
2	Commissioner of Customs (Appeals), Delhi-II	Commissioners of Customs, (ICDs) Delhi, (Preventive) Delhi.

(1)	(2)	(3)
3	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-I	Commissioners of Customs, Mulund CFS and (General) Mumbai, (Export) Mumbai, (Import) Mumbai.
4	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-II	Commissioners of Customs, (Export) Nhava Sheva, (Import) Nhava Sheva.
5	Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-III	Commissioners of Customs, (Airport) Mumbai, Aircargo (Export) Mumbai, Aircargo (Import) Mumbai, (Preventive) Mumbai.
6	Commissioner of Customs (Appeals), Kolkata	Commissioners of Customs, (Port) Kolkata, (Airport) Kolkata, (Preventive) West-Bengal.
7	Commissioner of Customs (Appeals), Chennai	Commissioners of Customs, Port (Import) Chennai, Port (Export) Chennai, Airport and Aircargo Chennai, (Preventive) Chennai.
8	Commissioner of Customs (Appeals), Bangalore	Commissioners of Customs, Bangalore, Mangalore.
9	Commissioner of Customs (Appeals), Ahmedabad-I & Ahmedabad-II	Commissioners of Customs, Ahmedabad, (Preventive) Jamnagar.
10	Commissioner of Customs (Appeals), Kandla	Commissioner of Customs, Kandla.
11	Commissioner of Customs (Appeals), Thiruvananthapuram	Commissioners of Customs, Cochin, (Preventive) Cochin.
12	Commissioner of Customs (Appeals), Vishakhapatnam	Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.
13	Commissioner of Customs (Appeals), Pune	Commissioners of Customs, Pune, Commissioner of Customs and Central Excise, Goa.
14	Commissioner of Customs (Appeals), Jalandhar	Commissioners of Customs, (Preventive) Amritsar.
15	Commissioner of Customs (Appeals), Jaipur	Commissioners of Customs, Jodhpur.
16	Commissioner of Customs (Appeals), Patna	Commissioners of Customs, (Preventive) Patna.

(1)	(2)	(3)
17	Commissioner of Customs (Appeals), Lucknow	Commissioners of Customs, (Preventive) Lucknow.
18	Commissioner of Customs (Appeals), Tiruchirapalli.	Commissioners of Customs, (Preventive) Tiruchirapalli.
19	Commissioner of Customs (Appeals), Guwahati	Commissioners of Customs, (Preventive) Shillong.

[F. No. 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002

सं. 17/2002-सीमाशुल्क ( एन. टी. )

सा.का.नि. 173(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 19/90 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 26 अप्रैल, 1990 को अधिकांश करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित क्षेत्रों के लिए उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को सीमाशुल्क आयुक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अधिकारियों को सीमाशुल्क अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित अधिकारियों को सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त नियुक्त करती है:-

अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकारियों का पदनाम		
(1)	(2)	(3)	(4)
सम्पूर्ण भारत	मुख्यालयों और जोनल/प्रादेशिक एककों में तैनात राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अपर महानिदेशक	मुख्यालयों और जोनल/प्रादेशिक एककों में तैनात राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक	मुख्यालयों और जोनल/प्रादेशिक एककों में तैनात राजस्व आसूचना महानिदेशालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक

[ फा. सं. 437/8/2001-सीमाशुल्क-IV ]

डी. एस. गार्ब्याल, अपर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2002

No. 17/2002-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 173(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/90- Customs (N.T.), dated the 26<sup>th</sup> April, 1990, the Central Government appoints the officers mentioned in Column (2) of the Table below to be the Commissioner of Customs, the officers mentioned in column (3) thereof to be the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Customs and Officers mentioned in column (4) thereof to be the Deputy Commissioners or Assistant Commissioners of Customs for the areas mentioned in the corresponding entry in column (1) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette:-

TABLE

Area of Jurisdiction	Designation of the officers		
(1)	(2)	(3)	(4)
Whole of India	Additional Director General, Directorate General of Revenue Intelligence posted at Headquarters and Zonal/regional units.	Additional Directors, or Joint Directors, of Directorate of Revenue Intelligence posted at Headquarters and Zonal/regional units.	Deputy Directors, or Assistant Directors, of Directorate of Revenue Intelligence posted at Headquarters and Zonal/regional units.

[F. No. 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002

सं. 18/2002-सीमाशुल्क ( एन. टी. )

सा.का.नि. 174(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 30/97 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 7 जुलाई, 1997 में उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(कक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर सीमाशुल्क आयुक्त होंगे।

(ककक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) होंगे।”

[ फा. सं. 437/8/2001-सीमाशुल्क-IV ]

डी. एस. गार्ब्याल, अवसर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 30/97 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 7 जुलाई 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 जुलाई, 1997 में सा० का० नि० 366 (अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 अक्टूबर, 2000 में प्रकाशित सा० का० नि० 780 (अ) तारीख 10 अक्टूबर, 2000 के अधीन अधिसूचना सं० 60/2000 - सीमाशुल्क (एन० टी०), तारीख 10 अक्टूबर, 2000 द्वारा किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2002

No. 18/2002-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 174(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/97-Customs (N.T.), dated the 7th July, 1997 with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette, namely :-

In the said notification, for clause (aa), the following shall be substituted, namely:-

"(aa) the Commissioners of Central Excise to be Commissioner of Customs within their respective jurisdiction as specified under rule 3 of the Central Excise Rules, 2002.

(aaa) Commissioner of Central Excise (Appeals) to be Commissioner of Customs (Appeals) within their respective jurisdiction as specified under rule 3 of the Central Excise Rules, 2002."

[F.No 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 30/97-Customs (N.T.), dated 7<sup>th</sup> July, 1997 was published in Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), dated 7<sup>th</sup> July, 1997 under GSR 366(E) and was last amended vide notification No. 60/2000-Customs (N.T.), dated 10<sup>th</sup> October, 2000 published in Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 10<sup>th</sup> October, 2000 under GSR 780(E), dated the 10<sup>th</sup> October, 2000.